

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सिवान-1

पत्रांक.... 968 (3780)

सिवान-1, दिनांक 5/6/25

प्रेषक :- कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, सिवान-1

सेवा में,
नोडल पदाधिकारी (3054)
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार पटना।

विषय :- योजना शीर्ष नई अनुरक्षण नीति 2018 एम0आर0/3054 मद में राशि की अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजना शीर्ष नई अनुरक्षण नीति 2018 एम0आर0/3054 मद में राशि की अधियाचना विहित प्रपत्र में भर कर अग्रतर कारवाई हेतु समर्पित किया जा रहा
अनुरोध है कि अधियाचित राशि उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

- अनु0- 1.विहित प्रपत्र में मॉग विवरणी।
2.Bump Integrator Equipment Report की प्रति।
3.एकरारनामा की छाया प्रति।

विश्वासभाजन

Sham
5/6/25

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, सिवान-1

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division:-RWD, (W) Division, Siwan-1

Sl No	Package No	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allowed Amount (in Lakhs)	Up-to-date Expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in Km)	amount (in Lakh)	Initial Rectification With Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1	RM/SI/SIW/24 /0010	LD48-TD1 Chakari to Purab Tola (TRAC48)	31406602094	03/01/2024	1.000	60.453	41.34808	6.79095	MBD-20/2024-25 08.10.2024	07.10.2025	24.03.2025	2678.95	25MM	5	23.88201	23.88201	17.44607	Complete
Total															23.88201	23.88201	17.44607	

1. Signed Hard Copy and Soft copy in excel of recorded IRI is enclose

2. Up to data Physical Progress has been uploaded in MIS

On 16/12
D.A.O
Rural Works Department
Works Division Siwan-1

24/01/25
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Siwan-1

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (I) below Rule-150)

Form of Utilisation Certificate upto the month of May-2025

NEW MAINTAINANCE POLICY 2018 (MR3054) MAINTAINANCE

PIU- RWD Works Division Siwan-1

PIU- RWD Works Division Siwan-1				
Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (In Lakh Rs.)	Amount Received (In Lakh Rs.)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under New Maintainance Policy (MR-3054) Maintenance	Previous Allotment	8838.83750	Certified that out of Rs.12696.70865 Lac received during the year 2025-26 in favour of Executive Engineer , R.W.D Bihar Siwan-1 a sum of Rs. 12484.71367 lac. has been utilized for the purpose of New Maintainance Policy (MR-3054) Maintenance Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 211.99498 lac. remaining unutilized at the end of the period under report.
		(Decrease) Lt-68,Dt-06.05.2024	172.59377	
		Lt-69,Dt-06.05.2024	134.13820	
		Lt-72,Dt-29.05.2024	102.6982	
		Lt-94,Dt-29.08.2024	78.90276	
		Lt-103,Dt-01.10.2024	96.48372	
		Lt-105,Dt-01.10.2024	48.75642	
		Lt-108,Dt-21.10.2024	88.49979	
		Lt-115,Dt-29.10.2024	48.85623	
		Lt-118,Dt-06.11.2024	115.90983	
		Lt-122,Dt-20.11.2024	60.53642	
		Lt-129,Dt-29.11.2024	1319.2083	
		Lt-130,Dt-17.12.2024	120.28812	
		Lt-140,Dt-27.12.2024	286.70404	
		Lt-02,Dt-14.01.2025	320.56173	
		Lt-12,Dt-07.02.2025	180.37439	
		Lt-29,Dt-30.03.2025	495.02954	
Total :			12696.70865	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

Physical Progress Achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

[Signature]
5/6/25
D.A.O

RWD Works Division, Siwan-1

[Signature]
5/6/25
Executive Engineer
RWD Works Division, Siwan-1


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल , सिवान 01

प्रमाणित किया जाता है कि एम० आर० 3054 योजनान्तर्गत L048-T01 Chakri to Purab Tola (Track48) पथ में कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है एवं साथ ही कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयवार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता एवं 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है ।

कनीय अभियंता


ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रशाखा _____


सहायक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अवर प्रमण्डल रघुनाथपुर


5/6/25

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल, सिवान-01


Road Name:- L048-T01 Chakari to Purab Tola (TRACK48)

(R) RURAL ROAD		
Good	Average	Poor
44000	4001-5000	>5001

26/5/15

Scanned with CamScanner

File: C:\Users\BRRODA106\Desktop\aiias_khan_sadhbhawana enterprises bump report.xls, Section No. 13, Eqn:
 Name of Customer: Aitayas Khan, Name of Work/ Road: L048-T01 Chakri se Purab Tola, Lab Job number:



[Signature]
 26/12/15

[Signature]
 26/12/15
 EXECUTIVE ENGINEER
 R.W.D. WORKS DIVISION
 GUVAN-1